



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 681]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2008/पौष 9, 1930

No. 681]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2008/PAUSA 9, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 897(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 (1906 का 3) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “लुई ब्रेल जन्म द्विशताब्दी (1809—2009)” कास्मरणोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में एक सौ रुपए और दो रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2008 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानक वजन तथा अनुज्ञात उपचार :—लुई ब्रेल की जन्म द्विशताब्दी का स्मरणोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अधीन एक सौ रुपए और दो रुपए के अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन तथा ऐसे सिक्कों के बनाने में अनुज्ञात उपचार नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा :—

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपए	35 ग्राम	चांदी में 1/500वां कम या ज्यादा अर्थात् चांदी में प्रति 1000 में 498 से 502 तक का अंतर हो सकेगा।	1/100वां कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 34.65 ग्राम से 35.05 ग्राम तक का अंतर हो सकेगा।
दो रुपए	5.62 ग्राम	तांबा और निकल में 1/100वां कम या ज्यादा अर्थात् निकल में 16% से 18% का अंतर हो सकता है।	1/25वां कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 5.39 ग्राम से 6.24 ग्राम तक का अंतर हो सकता है।

[फा. सं. 7/13/2007-सिक्का-II(भाग)]

सुशील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2008

G.S.R. 897(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21, read with Section 7 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement :—(i) These rules may be called the coinage of the One Hundred Rupees and Two Rupees coined to commemorate the occasion of “Birth Bi-Centenary of Louis Braille (1809—2009)” Rules, 2008.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Standard weight and remedy allowed :—Standard Weight and Remedy allowed on coins of One Hundred Rupees and Two Rupees denominations coined under the provisions of Section 6 of the Act, to commemorate the occasion of Birth Bi-Centenary of Louis Braille and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the Table below :—

TABLE

Denomination	Standrad Weight	Remedy Allowed	
		In Composition	In Standrad Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500 th plus or minus for Silver, that is to say, the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 34.65 grams to 35.5 grams.
Two Rupees	5.62 Grams	1/100 th plus or minus for Chromium, that is to say, Chromium could vary from 16% to 18%.	1/25 th plus or minus, that is to say, the weight could vary from 5.39 grams to 6.24 grams.

[F. No. 7/13/2007-Coin-II (Pt.)]

SUSHIL KUMAR, Under Secy.